



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, मंगलवार, 29 अगस्त, 2023

भाद्रपद 7, 1945 शक सम्वत्

*[Re-published from the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section- 3(iii), Dated
29th August, 2023]*

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN,
ASHOKA ROAD,
NEW DELHI-110001

29th August, 2023,

Dated : 7 Bhadra, 1945 (Saka),

NOTIFICATIONS

No. 100/CS-UP/02/2023(1): - WHEREAS, the seat of Shri Hardwar Dubey, in the Council of States, elected by the elected members of the Legislative Assembly of Uttar Pradesh, has become vacant on 26.06.2023 by the reason of his death, before the expiration of his term of office which was up to and including 25.11.2026; and

WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 147, sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) calls upon the elected members of the Legislative Assembly of Uttar Pradesh to elect, before 19th September, 2023 and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Council of States;

(B) appoints, with respect to the said election;

(a) the 05th September, 2023 (Tuesday), as the last date for making nominations;

(b) the 06th September, 2023 (Wednesday), as the date for the scrutiny of the nominations;

(c) the 08th September, 2023 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 15th September, 2023 (Friday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 19th September, 2023 (Tuesday), as the date before which the election shall be completed; and

(C) fixes the hours from 09:00 am to 04:00 pm, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

No. 100/CS-UP/02/2023 (2): - In pursuance of Section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, in consultation with the Government of the State of Uttar Pradesh, hereby-

(i) designates the officer, specified in column (1) of the TABLE below, to be the Returning Officer; and

(ii) appoints the officer, specified in column (2) of the said TABLE, to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning officer in the performance of his functions; in respect of the bye-election to the Council of States, to be held in the State in pursuance of the Commission's Notification, published in the Gazette of India on 29th August, 2023: -

TABLE

Officer designated as Returning Officer	Officer appointed as Assistant Returning Officer
1	2
Sri Brij Bhushan Dubey, Special Secretary, Legislative Assembly, Uttar Pradesh, Lucknow	Sri Ajeet Kumar Sharma, Joint Secretary, Legislative Assembly, Uttar Pradesh, Lucknow.

By order,
SUMAN KUMAR DAS,
*Secretary to the
Election Commission of India.*

By order,
RATNESH SINGH,
Special Secretary.

[भारत के राजपत्र भाग-ii, खंड-3 (iii), के असाधारण अंक तारीख 29 अगस्त, 2023 से पुनः प्रकाशित]

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001

दिनांक: 29 अगस्त, 2023
7 भाद्रपद, 1945 (शक)

अधिसूचनाएं

सं०: 100/रा०स०-उ०प्र०/02/2023(1):- यतः, उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा में निर्वाचित श्री हरद्वार दुबे का स्थान जिनकी पदावधि 25.11.2026 सहित उस तारीख तक थी के समाप्त होने से पूर्व मृत्यु होने के कारण दिनांक 26.06.2023 से रिक्त हो गया है; और

यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराना है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 147, धारा 39 की उपधारा (1), और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्वारा -

(अ) उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे 19 सितम्बर, 2023 से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में :-

- (क) नामनिर्देशित करने की अन्तिम तारीख -05 सितम्बर, 2023 (मंगलवार) ;
 (ख) नामनिर्देशन की संवीक्षा की तारीख -06 सितम्बर, 2023 (बुधवार) ;
 (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख -08 सितम्बर, 2023 (शुक्रवार) ;
 (घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान होगा -15 सितम्बर, 2023 (शुक्रवार); और
 (ङ) वह तारीख, जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा -19 सितम्बर, 2023 (मंगलवार) ;
 नियत करता है; और

(इ) 9.00 बजे पूर्वाह्न से 04.00 बजे अपराह्न तक का समय, उस समय के रूप में नियत करता है जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो, विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

सं०: 100/रा0स0-उ0प्र0/02/2020(2):-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में और धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा तारीख 29 अगस्त, 2023 को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आयोग की अधिसूचना के अनुसरण में इस राज्य से राज्य सभा के लिए होने वाले उप निर्वाचन के संबंध में एतद्वारा-

(I) नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है; और

(II) उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है।

सारणी

रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्ति अधिकारी
(1)	(2)
श्री बृजभूषण दुबे, विशेष सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश लखनऊ।	श्री अजीत कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

आदेश से,
 सुमन कुमार दास
 सचिव,
 भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
 रत्नेश सिंह
 विशेष सचिव।